

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 117]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 1977 फाल्गुन 16, 1898

No 117]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 1977/PHALGUNA 16, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDER

New Delhi, the 7th March 1977

S.O. 219 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the Order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay, hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their/language versions to be of the description specified against it, each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35mm (in mtrs.)	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	INR No. 1460	223'00	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		"News and Current Events".

1	2	3	4	5	6
2	INR No. 1460 (Southern Edition)	296.00	Do.	Do.	(Release in Southern circuit)
3	INR No. 1461	230.00	Do.	Do.	"News and Current Events".
4	INR No. 1461 (Western Edition)	300.00	Do.	Do.	(Release in Western Circuit).
5	INR No. 1462	235.00	Do.	Do.	"News and Current Events".
6	INR No. 1462 (Northern Edition)	302.00	Do.	Do.	(Release in Northern Circuit).
7	INR No. 1463	235.00	Films Division Govt. of India, 24-Peddar Road, Bombay-26	Do.	"News & Current Events"
8	INR No. 1463 (Eastern Edition)	302.00	Do.	Do.	(Release in Eastern Circuit)
9	Mahitichitra No. 237.	215.69	Asstt Director of Information, Government of Gujarat, Sachivalaya, Gandhi Nagar.	Director	"News & Current Events" (Release in Gujarat Circuit).
10	Uttar Pradesh Samachar No. 35.	297.18	Shri Dharendra Panle Film Officer, C/o Bombay Film Laboratory, 149-SK Bole Road, Bombay-28	Shri Yogendra Narayan, Director of Information, Government of UP, Lucknow.	"News and Current Events" (Release in U.P. Circuit).
11	Uttar Pradesh Samachar No. 36	289.85	Do.	Do.	Do.
12	Hidden Force	328.00	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26	Do.	"Educational"
13	Trees in Delhi. (INR No. 1460-A)	194.00	Do.	Do.	"Documentary"
14	Stress on Nutrition	252.00	Do.	Do.	"Educational"
15	Not a Bed of Feathers	435.00	Do.	Do.	Do.
16	Madadgar	27.00	Do.	Do.	Do.
17	Naye Yug Ki Katha	30.00	Do.	Do.	Do.
18	Visakhapatnam Deepest Harbour in India.	278.00	Shri Biren Dass, 1/17, Sixty Tenments, D N. Nagar, Andheri (West), Bombay-58.	Do.	"Documentary"
19	Charm-Ka-Chamatkar	325.83	Shri Prakash Arora, Arora Films, Khar, Bombay.	Shri YC Sharma, Director of Publicity, Khadi & Village Industries Commission, Irla Road, Vile Parle, Bombay-54	"Educational"

1	2	3	4	5	6
20	Roof Above . . .	490.12	Shri B.D. Garga, D-II, Commerce Centre, Tarden Road, Bombay.		"Documentary"
21	I can, I am Able	440.00	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		"Educational"
22	Ide Mana Katha . .	408.00	Andhra Pradesh State Film Development Corporation Ltd., Gruhakalpa, M.J. Road, Hyderabad-I.		"Documentary"

[No. F. 201/1/76-F(P) Appendix No. 2076]

S. S. SETH,

Section Officer (Special)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 7 मार्च, 1977

का० आ० 219 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमन के उपबंध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपांतरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी० (मीटर में)	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमैट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1460	223.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24, पैडर रोड, बम्बई-26		"समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म"
2.	भारतीय समाचार चित्र संख्या 1460 (दक्षिण संस्करण)	296.00	तद्वैव		तथैव (दक्षिण सर्किट में प्रदर्शन के लिए)

1	2	3	4	5	6
3. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1461	230.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24 पैडर रोड, बम्बई-26			“समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म”।
4. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1461 (पश्चिमी संस्करण)	300.00		तदैव		तदैव (पश्चिमी सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
5. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1462	235.00		तदैव		“समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म”।
6. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1462 (उत्तरी संस्करण)	302.00		तदैव		“समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म” (उत्तरी सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
7. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1463	235.00		तदैव		“समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म”।
8. भारतीय समाचार चित्र संख्या 1463 (पूर्वी संस्करण)	302.00		तदैव		तदैव (पूर्वी सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
9. महिती चित्र संख्या 237	215.69	सहायक सूचना निदेशक, गुजरात सरकार, सचिवालय गांधी नगर।	सूचना निदेशक गुजरात सरकार, सचिवालय, गांधी नगर।		“समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म” (गुजरात सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
10. उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 35	297.18	श्री धीरेन्द्र पांडेय, फिल्म अधिकारी, मार्फत बम्बई फिल्म लेबोरेट्री, 149-एस.के. बोले रोड, बम्बई-28	श्री योगेंद्र नारायण, सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।		“समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म” (उत्तर प्रदेश सर्किट में प्रदर्शन के लिए)
11. उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 36	289.85		तदैव	तदैव	तदैव

1	2	3	4	5	6
12.		328.00	फिल्म प्रभाग भारत सरकार 24, पैडर रोड, बम्बई-26		“शिक्षा सम्बन्धी”
13.	(भारतीय समाचार चित्र संख्या 1460क)	194.00	तदैव		“डाकुमेंट्री”
14.		252.00	तदैव		“शिक्षा सम्बन्धी”
15.	फूलों की सेज नहीं	435.00	तदैव		तदैव
16.	मददगार	27.00	तदैव		तदैव
17.	नए युग की कथा	30.00	तदैव		तदैव
18.		278.00	श्री बिरेन वास, 1/17, सिक्सटी टेनमेंट्स, डी.एन.नगर, अंधेरी (पश्चिम), बम्बई-58.		“डाकुमेंट्री”
19.	शर्म का चमत्कार	325.83	श्री प्रकाश श्री वार्ड, सी. अरोड़ा, अरोड़ा शर्मा, प्रचार फिल्म, खार, निदेशक, बम्बई। खादी और ग्राम उद्योग आयोग, हर्ला रोड, बिले पार्ले, बम्बई-64.		“शिक्षा सम्बन्धी”
20.		490.12	श्री बी.डी. गर्ग, डी-11, कामर्स सेंटर, तारवेव रोड, बम्बई।		“डाकुमेंट्री”
21.		440.00	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24, पैडर रोड, बम्बई-26		“शिक्षा सम्बन्धी”
22.	इंदे मना कथा	408.00	आंध्र प्रदेश स्टेट फिल्म डवलपमेंट कारपोरेशन लि०, गृहकल्पा, एम. जे रोड, हैदराबाद-1.		“डाकुमेंट्री”

[संख्या फा० 201 1/76-एफ(पी) परिशिष्ट संख्या 2076]

म्याम सुन्वर सेठ,

अनुभाग अधिकारी (विशेष)।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD.
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

